



दशमलव जोड़ (1 अंक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\begin{array}{r} 6.8 \\ +2.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.5 \\ +5.9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.2 \\ +2.9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.8 \\ +4.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ +6.9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.7 \\ +4.7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.6 \\ +5.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.1 \\ +4.1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.9 \\ +8.1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.2 \\ +8.1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.8 \\ +4.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.4 \\ +2.5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6.7 \\ +7.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.8 \\ +5.8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.6 \\ +2.3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.7 \\ +5.7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.1 \\ +4.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.7 \\ +7.7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.8 \\ +3.7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.5 \\ +5.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.2 \\ +4.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.9 \\ +2.7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.3 \\ +7.3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.1 \\ +6.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.1 \\ +9.5 \\ \hline \end{array}$$